



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 649 राँची, मंगलवार 25 अग्रहायण 1936 (श०)
16 दिसम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2014

संख्या-1/पी0-108/2014 का.- 11665--मुख्य सचिव, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सजल चक्रवर्ती, भा.प्र.से. (झा:80) के चिकित्सीय अवकाश में रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री आर0एस0 पोद्दार, भा.प्र.से. (झा:82), विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार - माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव) अपने कार्यों के साथ मुख्य सचिव, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 649—50 ।